



# PNC Infratech Limited

An ISO 9001 : 2015 Certified Company

Ref No: PNC/SE/37/25-26

Date: 14.08.2025

To,  
The Manager  
Department of Corporate Services  
BSE Limited  
Floor 25, P.J. Towers,  
Dalal Street, Mumbai-400 001  
Scrip code:539150

To,  
The Manager  
Listing Department  
National Stock Exchange of India Limited  
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,  
Bandra (East), Mumbai-400 051  
NSE Symbol: PNCINFRA

Dear Sir,

**Sub: Newspaper publication pertaining to unaudited financial results of the company for the quarter ended June 30, 2025**

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of newspaper advertisements pertaining to unaudited financial results of the Company for the quarter ended June 30, 2025 published on August 14, 2025 in English and regional newspapers namely- Financial Express (English) and Jansatta (For Hindi).

This is for your information and records.

Thanking you,

**For PNC Infratech Limited**

**Tapan Jain**  
**Company Secretary & Compliance Officer**  
**M. No.: A22603**

Encl: as above



**Corporate Office :** PNC Tower,  
3/22-D, Civil Lines, Bypass Road,  
NH-2, Agra-282002

Tel. : 91-562-4054400 (30 Lines)  
91-562-4070000 (30 Lines)

Fax : 91-562-4070011

Email : ho@pncinfratech.com

**Regd. Office :** NBCC Plaza, Tower II,  
4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket  
New Delhi-110017 (India)

Tel. : 91-11-29574800 (10 Lines)  
91-11-29566511, 64724122

Fax : +91-11-29563844

Email : delhioffice@pncinfratech.com  
Web. : www.pncinfratech.com  
CIN : L45201DL1999PLC195937



DIENSTEN TECH LIMITED		FORM NO. 14
REGD. OFFICE: 3RD FLOOR, A-2, SEC. 14/14002/20TH, GREATER KALASHI, NEW DELHI-110048		[Seal Regulation 33(2)]
WEBSITE: WWW.DIENTECH.COM EMAIL: CS@DJT.COM		By Regd. A/D, Dated falling which by Publication
Statement of Consolidated Financial Results for the quarter ended on June 30, 2025		
(Amount in ₹ Thousands, unless specified)		
Sr. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)
I	Revenue	221,48,95,26
II	Revenue from Operations	2,53,27,20
III	Other Income	22,11,79,95
IV	Total Comprehensive Income (or) Loss	16,14,84,92
V	Expenses	8,84,00,00
VI	(a) Depreciation and amortization expense	1,55,01,07
VII	(b) Other expenditure	2,25,55,29
VIII	Total Expenses (or) Loss	23,35,55,29
IX	Profit / (Loss) from Operations before exceptional items (III-IV)	(7,73,31,31)
X	Profit / (Loss) before Tax (V-VI)	(7,73,31,31)
XI	Tax Expense	1,81,64,49
XII	Adjusted tax relating to earlier years	1,81,64,49
XIII	Total Tax Expense (XIX)	1,81,64,49
XIV	Net Profit / (Loss) for the period (VI-VIII)	86,17,67
XV	Total other Comprehensive Income (or) Loss	(22,37,97)
XVI	(a) Items that will be reclassified to profit or loss	-
XVII	(b) Items that will be reclassified to profit or loss	-
XVIII	Other Comprehensive Income, net of tax	65,77,70
XIX	Total Comprehensive Income for the period, net of tax (IX+X)	(4,64,12)
XX	(a) Earnings per Share (EPS) (Face value of ₹ 10/- each)	82,90,46
XXI	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)	-
XXII	Earnings Per Share (in ₹)	(0.74)
XXIII	(a) Basic	(0.73)
XXIV	(b) Diluted	-

Notes to Consolidated Financial Results:

- The consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind AS") prescribed under section 13 of the Companies Act, 2013 read with relevant rules issued thereunder. The results have been prepared on a going concern basis in accordance with the requirements of Ind AS and Disclosure Requirements Regulations, 2015, voluntarily and not mandated as per allowed regulations.
- The above consolidated financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and further considered and approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on Aug 12, 2025. The statutory auditor of the Company has expressed an unmodified review opinion on these consolidated financial results.
- During the quarter ended June 30, 2025, the Company has acquired 100% ownership interest in USTL Technology Services LLP ("the LLP") with effect from May 12, 2025, pursuant to which the LLP became a wholly-owned subsidiary and control was established from that date. In view of this, the financial information of the LLP for the period from May 12, 2025 to June 30, 2025 has been prepared in accordance with the requirements of Ind AS and included in the consolidated financial results of the Holding Company for the quarter ended June 30, 2025. Accordingly, the above financial results do not include comparative figures for the corresponding quarter of periods in the previous year.
- In line with the provision of Ind AS 108 - Operating Segments and on the basis of review of operations being done by the management of the company, the consolidated operations of the Company falls under business of service relating to information, consulting and corporate services, which is considered to be the only reportable segment by the management.
- The consolidated financial results of the company are also available on the Company's website ([www.dienstentech.com](http://www.dienstentech.com)) and on the website of NSE ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the website of BSE of Directors of Dienstentech Limited.

Place: New Delhi  
Date: 12.08.2025

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - III		FORM NO. 14
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT)		[Seal Regulation 33(2)]
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001		By Regd. A/D, Dated falling which by Publication
DEMAND NOTICE		
NOTICE UNDER SECTIONS 25 TO 28 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993 AND RULE 2 OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961.		
RC/153/2024		12-06-2025
KARNATAKA BANK LIMITED Versus S CRORE ACOUSTICS PVT. LTD.		
To,		(CD 1) S Crore Acoustics Pvt. Ltd.,
VZ-2, Uppanagar Market, Ashok Nagar, New Delhi - 110018.		Also At: Unit A1 C-228, Rico Industrial Area Phase-II, Bhivadi, Alwar: Rajasthan-301019
(CD 2) Amarj Singh S/o Surinder Singh Kalra, (DIRECTOR/GUARANTOR)		C-130, Mansarovar Garden, Ramesh Nagar, New Delhi - 110015
(CD 3) Surinder Singh Kalra W/o Amarj Singh Kalra,		C-130, Mansarovar Garden, Ramesh Nagar, New Delhi - 110015
This is to notify that as per the Recovery Certificate issued in pursuance of orders passed by the Presiding Officer, DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT) 1 in TA/886/2022 an amount of Rs.27766126.92 (Rupees Twenty Seven Crores Seventy Lakhs Sixty One Thousand Two Hundred Sixty Six And Paise Ninety Two Only) along with pendente lite and future interest @ 12% Simple Interest Yearly w.e.f. 01/12/2019 till realization and costs of Rs. 15000 (Rupees One Lakh Fifty Thousands Only) has become due against you jointly and severally Fully/Limitedly.		
2. You are hereby directed to pay the above sum within 15 days of the receipt of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 and Rules there under.		
3. You are hereby ordered to declare on an affidavit the particulars of your assets on or before the next date of hearing.		
4. You are hereby ordered to appear before the undersigned on 30/09/2025 at 10:30 a.m. for further proceedings.		
5. In addition to the sum aforesaid, you will also be liable to pay:		
(a) Such interests as is payable for the period commencing immediately after the notice of the certificate/ bank enforcement proceedings.		
(b) All costs, charges and expenses incurred in respect of the service of this notice and warrants and other processes and all other proceedings taken for recovering the amount due.		
Given under my hand and the seal of the Tribunal, on this date: 12/06/2025		
Sd/-		NIRANJAN SHARMA
Recovery Officer (DRT)		DEBTS RECOVERY TRIBUNAL DELHI (DRT)

PUBLIC ANNOUNCEMENT		FORM B
(Regulation 12 of the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)		
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF SURYA SHAKTI RESOURCES PRIVATE LIMITED		
RELEVANT PARTICULARS		
Sr. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Name of corporate debtor	Surya Shakti Resources Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	03.07.2008
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	ROC - Delhi
4.	Corporate Identity No./ Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U40300HR2008PTC036120
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: 1186, Sector 70, Park Road, Lutyens - 110020
6.	Date of closure of Insolvency Resolution Process	16.07.2025
7.	Liquidation commencement date of corporate debtor	09.08.2025 (The liquidation process was initiated under order dated 17.07.2025, however, the order was received from the Registrar of Mumbai on 09.08.2025).
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as liquidator	Mr. Sanjay Mehra Reg. No. UIN/PA/001/P018/2019-2026/12784
9.	Address and e-mail of the liquidator, as registered with the Board	ADD: B-11, Third Floor, Connaught Enclave, Opp. Air India College, New Delhi - 110017 Email ID: sanjay.mehra64@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the liquidator	ADD: B-11, Third Floor, Connaught Enclave, Opp. Air India College, New Delhi - 110017 Email ID: csp.suryashakti@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	08.09.2025
Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal (Chandigarh Bench) has ordered the commencement of liquidation of Surya Shakti Resources Private Limited on 09.08.2025. The liquidation process was initiated under order dated 17.07.2025, however, the order was received via post on 08.08.2025.		
The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other claims may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic means. In case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process under the Insolvency and Bankruptcy Code of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, shall be deemed to be submitted under section 38.		
Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties.		
Sd/-		CA Sanjay Mehra
In the Matter of Surya Shakti Resources Pvt. Ltd.		IBBI Reg. No.: IBBI/PA-001/P018/2019-2026/12784
Liquidation Matter ID: csp.suryashakti@gmail.com		AFV Valid upto 30.06.2026
Date: 14.08.2025		Place: New Delhi

TRUCAP FINANCE LIMITED	
Registered Office: Register office at 4th Floor, A Wing, D.J. House, Old Nagardas Road, Andheri (East), Mumbai - 400069, Maharashtra, GST No: 27AACD9887D12C	
Corporate Identity Number: L64920MH1994PLC334457	
PUBLIC NOTICE	
This is to inform the Public that Auction of pledged G&M Ornaments will be conducted by TruCap Finance Limited on 29th August 2025 at Noida Sec-18 at 11:00 A.M.	
Branch address: TruCap Finance Limited, Noida Sec-18, 1st floor, Office No. 102, Virtual Chamber Sec-18, Noida-201301.	
The G&M Ornaments to be auctioned belong to Loan Accounts of our various customers who have failed to pay their dues. Our notices of auction have been duly issued to these borrowers.	
The G&M Ornaments to be auctioned belong to Overdue Loan Accounts of our various customers mentioned below with branch name.	
Ghazabad Branch: GL0000000256587, GL0000000222221, GL0000000282620, GL0000000283166, GL0000000285227, GL0000000285392, GL0000000318177, GL0000000324355, GL0000000327128, GL0000000328849, GL0000000265963, GL0000000265512, GL0000000270215, GL0000000270348, GL0000000278240, GL0000000303859, GL0000000316900, GL0000000331826, Noida Sec-18 Branch: GL0000000097105, GL0000000118111, GL0000000118957, GL0000000121054, GL0000000122659, GL0000000123087, GL0000000123479, GL0000000131987, GL0000000132065, GL0000000132097, GL0000000132915, GL0000000137358, GL0000000157587, GL0000000157606, GL0000000164831, GL0000000170549, GL0000000179221, GL0000000185959, GL0000000181853, GL0000000183782, GL0000000194793, GL0000000194996, GL0000000194975, GL0000000195972, GL0000000197014, GL0000000198457, GL0000000204686, GL0000000206205, GL0000000211415, GL0000000219342, GL0000000214315, GL0000000219371, GL0000000229314, GL0000000241782, GL0000000241916, GL0000000245668, GL0000000246708, GL0000000247086, GL0000000260138.	
For more details, please contact TruCap Finance Limited, Contact Person: Satish Kumar, Contact Number(s): 9580735444	
TruCap Finance Limited reserves the right to alter the number of accounts to be auctioned & postpone / cancel the auction without any prior notice.	
TruCap Finance Limited	

<

Notes to financial result:

- The above results were reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th August, 2025 and the Statutory Auditor of the Company has carried out a limited review of the same.
- The figures for the previous period have been re-grouped/classified to make them comparable with the figures for the current period.
- The above is an extract of the detailed Un-audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and full format of the same are also available on the website of the Company [www.aiml.in](http://www.aiml.in) and the website of BSE i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com).
- The Un-audited Financial Results of the Company can be accessed through QR Code.

Place: New Delhi  
Date: 12.08.2025

For Alliance Integrated Metalik Ltd. Sd/-

Daljit Singh Chahal  
Chairman cum Whole Time Director  
DIN: 03331560

# DELPHI WORLD MONEY LIMITED

(Erstwhile EbixCash World Money India Limited)

CIN: L65990MH1985PLC037697

Mumbai 400 098.

Tel: +91-22-62881500. Email: corp.relations@ebixcash.com. Website: www.indiaforexonline.com

## STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30<sup>th</sup> JUNE, 2025

(₹ in Million)

S. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	165.51	173.06	197.84	739.56
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax	61.02	67.14	47.42	145.73
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	45.14	28.73	35.66	19.55
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income)	44.99	28.01	35.39	18.73
5	Paid-up Equity Share Capital	111.28	111.28	111.28	111.28
6	Other equity (excluding Revaluation Reserve)	0	0	0	2124.31
7	Earnings per share (for continuing and discontinued operations) (of INR 10/- each) (not annualised)				
(a) Basic (INR)		4.06	2.58	3.20	1.76
(b) Diluted (INR)		4.06	2.58	3.20	1.76

### Notes:

- The above is a statement of unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)/[www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website [www.indiaforexonline.com](http://www.indiaforexonline.com).
- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2025.

FOR DELPHI WORLD MONEY LIMITED  
(ERSTWHILE EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED)

Sd/-

TRIVUNAMALAI CHANDRASHEKHAR GURUPRASAD

CHAIRMAN

DIN: 03413982

DATE: 12<sup>th</sup> August, 2025

PLACE: MUMBAI

Notes:

- The above is a statement of unaudited financial results for the quarter ended 30th June, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website [www.indiaforexonline.com](http://www.indiaforexonline.com).
- The above unaudited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th August, 2025.

DATE: 12th August, 2025  
PLACE: MUMBAI

FOR DELPHI WORLD MONEY LIMITED (ERSTWHILE EBIXCASH WORLD MONEY INDIA LIMITED) Sd/-

TIRUVANMALAI CHANDRASHEKHARAN GURUPRASAD  
CHAIRMAN  
DIN: 03413982

# PNC INFRETECH LIMITED

Registered Office : NBCC Plaza, Tower II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-5, New Delhi - 110017  
CIN : L45201DL1999PLC195937, Email : complianceofficer@pncinfretech.com, Website : www.pncinfretech.com

Rs. in Lakhs (except EPS)

## EXTRACT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

		Standalone				Consolidated			
S.N.	Particulars	Quarter Ended (30.06.2025)	Quarter ended (31.03.2025)	Quarter Ended (30.06.2024)	Year ended (31.03.2025)	Quarter Ended (30.06.2025)	Quarter ended (31.03.2025)	Quarter Ended (30.06.2024)	Year ended (31.03.2025)
		unaudited	Audited	unaudited	Audited	unaudited	Audited	unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	1,14,658.40	1,44,341.78	1,75,304.50	5,57,946.34	1,45,364.17	1,76,663.28	2,19,782.09	6,94,046.43
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	11,004.76	15,580.41	56,674.59	94,892.17	18,014.92	15,100.07	76,800.78	1,19,156.07
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	11,004.76	15,580.41	56,674.59	94,892.17	50,184.76	15,100.07	76,800.78	1,19,156.07
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,077.25	12,096.58	42,108.63	70,560.52	43,131.67	7,543.80	57,516.74	81,541.75
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	8,164.59	12,236.81	42,178.35	70,909.91	43,233.77	7,718.94	57,595.88	81,954.31
6	Equity Share Capital	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78	5,130.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	5,42,371.26	-	-	-	5,93,773.22
8	Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic & Diluted:	3.15	4.71	16.41	27.50	16.81	2.94	22.42	31.79
		(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Annualized)	(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Not Annualized)	(Annualized)

### Notes :

- The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website i.e. www.pncinfretech.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2025.
- Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.
- The Financials can be accessed through below mentioned QR Code

For PNC Infretech Ltd.  
Sd/-  
Chakresh Kumar Jain  
Managing Director  
(DIN : 0008676205)

Place : Agra

Date : August 13, 2025

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter Ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Ended Financial Results are available on Stock Exchanges website i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website i.e. [www.pncinfretech.com](http://www.pncinfretech.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on August 13, 2025.
- Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.
- The Financials can be accessed through below mentioned QR Code.

Place : Agra  
Date : August 13, 2025

GRM OVERSEAS LIMITED		CIN: L74899DL1995PLC064007
Regd. Off: 128, FIRST FLOOR, SHIVA MARKET PITAMPURA North Delhi-110034		
Email Id: investor.relations@grmrice.com, Website : www.grmrice.com, Ph-011-47330330, Fax No: 011-0180-2653673		
" Extract of Consolidated and Standalone Financial Results for Quarter ended 30th June, 2025 [In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] "		
		(Amount in Lakhs)

"Extract of Consolidated and Standalone Financial Results for Quarter ended 30th June, 2025[In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015] "									
		(Amount In Lakhs)							
Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended June 30, 2025	Quarter Ended March 31, 2025	Quarter Ended June 30, 2024	Year Ended March 31, 2025	Quarter Ended June 30, 2025	Quarter Ended March 31, 2025	Quarter Ended June 30, 2024	Quarter Ended March 31, 2025
		(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	25,592.55	24,281.70	27,589.53	91,314.68	32,677.95	29,138.66	37,007.50	1,34,819.28
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,170.15	2,262.48	2,152.13	6,988.51	2,538.05	2,895.41	2,434.90	8,474.17
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,170.15	2,262.48	2,152.13	6,988.51	2,538.05	2,895.41	2,434.90	8,474.17
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,631.99	1,585.62	1,608.18	5,100.22	1,909.15	2,047.69	1,802.32	6,123.63
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,631.99	1,584.52	1,612.02	5,099.10	1,849.79	2,013.86	1,812.77	6,075.86
6	Total Comprehensive Income Attributable to Non Controlling Interest	-	-	-	-	14.66	2.57	22.73	64.07
7	Total Comprehensive Income Attributable to Controlling Interest	-	-	-	-	1,835.13	2,011.31	1,790.03	6,011.75
8	Paid Up Equity Share Capital (Face Value per share Rs. 2/-)	1,227.04	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,227.04	1,200.00	1,200.00	1,200.00
9	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	37,768.72	-	-	-	41,168.76
10	Earnings Per Share (of ₹2/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	1. Basic:	2.66	2.64	2.68	8.50	3.11	3.41	3.00	10.21
	2. Diluted:	2.36	2.30	2.68	7.38	2.76	2.96	3.00	8.83
Notes:									
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly/ Half yearly/Annually results filed with the stock exchanges under the Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full formats of quarterly/annual Financial results are available on the stock exchange website i.e. www.bseindia.com and									



